

यह पत्र आपके चैनल पर दिखाई जा रही खबर के सन्दर्भ में है. आपके द्वारा SV क्रेडिटलाइन के बारे में जो भी खबर दिखाई जा रही, उन खबरों में तथ्यात्मक सत्यता नहीं है.

SVCL भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धरा 45 झ के द्वारा NBFC - MFI के रूप में पंजीकृत है. इसका पंजीकरण नंबर है - B.14. 01603. कंपनी का मुख्य कार्यालय गुडगाँव, हरियाणा में स्थित है. कंपनी के विवरण को RBI की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है.

https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_NBFCList.aspx

<http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/DOCs/NMFI012014FL.xls>

यहाँ यह बताना उचित होगा की SVCL RBI के द्वारा निर्देशित मानदंडों का शत-प्रतिशत पालन है और कंपनी के क्रियाकलापों का समय समय पर RBI के द्वारा ऑडिट किया जाता रहा है. जैसी साथ में ही SVCL दो SRO (स्वयं नियंत्रित संस्थान) **MFIN** (Micro Finance Institutions Network (MFIN), 705, 7th Floor, Tower B, Millennium Plaza, Sushant Lok 1, Gurgaon-122002 Contact No: +91- 124 – 4212570, +91- 124-4212571 Email: contact@mfinindia.org) एवं **सा-धन** (Sa-Dhan, A 1-248, 3rd Floor, Safdarjung Enclave, Near Kamal Cinema, New Delhi-110029, Phone :+91.11.47174400) की सदस्य है जो की RBI के द्वारा नियुक्त किये गए हैं.

कंपनी ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कार्य करती है. कंपनी किसी भी प्रकार का निवेश नहीं करवाती है.

कंपनी ऋण प्रदान करने के लिए किसी भी किस्म की सिक्योरिटी/डिपाजिट/जमीन जायदाद के कागजात/सोना/गहने/रूपये/इत्यादि गिरवी नहीं रखती है.

कंपनी RBI द्वारा निर्धारित NBFC-MFI के लिए लागू व्याज दर से अधिक व्याज नहीं लेती है. यह व्याज दर RBI द्वारा जारी किये गए सर्कुलर के नियमानुसार है. कंपनी की मौजूदा प्रभावी व्याज दर 24.7% घटते दर में है जो की RBI के नियम अनुसार है. यह व्याज दर बैंक के व्याज दर से जुडी हुई है. कंपनी कभी भी 36% व्याज नहीं लेती है. व्याज दर के सम्बद्ध में जारी RBI के दिशानिर्देश पत्र के साथ संलग्न हैं.

यदि कंपनी द्वारा दी गयी जानकारी की पुष्टि करना चाहते हैं तो आप RBI के दिल्ली के रीजनल ऑफिस में भी संपर्क कर सकते हैं.

संलग्न :

1. RBI द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र
2. RBI का NBFC-MFI के लिए जारी मास्टर सर्कुलर
3. RBI द्वारा जारी Applicable Average Base Rate to be charged by NBFC-MFI के लिए जारी सर्कुलर
4. भारत सरकार - कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी
5. SVCL द्वारा ग्राहक को जारी लोन कार्ड